



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2011/माघ 12, 1932

No. 176]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2011/MAGHA 12, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2011

का.आ. 216(अ).—कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1986 के नियम 3 के साथ पठित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 4 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों को नियुक्त करती है और इस प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 12 अगस्त, 1986 की अधिसूचना सं. का.आ. 486(अ) में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा; अर्थात्,—

“धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त

1. अध्यक्ष, —अध्यक्ष”
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली

(ख) क्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा; अर्थात् :—

“धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त

3. संयुक्त सचिव, योजना आयोग, भारत —सदस्य”
सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग के प्रभारी

(ग) क्रमांक 7 से 24 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रमांकों और प्रविष्टियों को रखा जाएगा; अर्थात्,—

“धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (ङ) के अधीन नियुक्त

7. संयुक्त सचिव (व्यापार) —सदस्य
कृषि एवं सहकारिता विभाग,
कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली
8. उप-सचिव (निर्यात संवर्धन-कृषि), —सदस्य
वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग
मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
9. निदेशक (वित्त), वाणिज्य विभाग, —सदस्य
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली
10. निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण —सदस्य
उद्योग मंत्रालय, पंचशील भवन,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली
11. निदेशक, खाद्य एवं सार्वजनिक —सदस्य
वितरण विभाग, कृषि भवन,
नई दिल्ली
12. संयुक्त सचिव (इम्पेक्स) —सदस्य
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली

13. निदेशक नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गाँधी भवन, नई दिल्ली	—सदस्य	(i) का.आ. 851(अ), दिनांक 20 नवम्बर, 1986 (ii) का.आ. 50(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1987 (iii) का.आ. 757(अ), दिनांक 12 अगस्त, 1986 (iv) का.आ. 458(अ), दिनांक 16 जून, 1989 (v) का.आ. 808(अ), दिनांक 22 जून, 1991 (vi) का.आ. 39(अ), दिनांक 22 जून, 1986 (vii) का.आ. 99(अ), दिनांक 14 फरवरी, 1991 (viii) का.आ. 827(अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 1991 (ix) का.आ. 858(अ), दिनांक 24 नवम्बर, 1992 (x) का.आ. 1050(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 1993 (xi) का.आ. 531(अ), दिनांक 18 जुलाई, 1994 (xii) का.आ. 346(अ), दिनांक 19 अप्रैल, 1995 (xiii) का.आ. 668(अ), दिनांक 26 जुलाई, 1995 (xiv) का.आ. 228(अ), दिनांक 21 मार्च, 1997 (xv) का.आ. 683(अ), दिनांक 26 सितम्बर, 1997 (xvi) का.आ. 146(अ), दिनांक 24 फरवरी, 1998 (xvii) का.आ. 805(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 1998 (xviii) का.आ. 288(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 1999 (xix) का.आ. 794(अ), दिनांक 27 सितम्बर, 1999 (xx) का.आ. 39(अ), दिनांक 12 जनवरी, 2000 (xxi) का.आ. 417(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2000 (xxii) का.आ. 156(अ), दिनांक 22 फरवरी, 2001 (xxiii) का.आ. 482(अ), दिनांक 29 मई, 2001 (xxiv) का.आ. 534(अ), दिनांक 10 मई, 2002 (xxv) का.आ. 866(अ), दिनांक 10 जुलाई, 2003 (xxvi) का.आ. 1353(अ), दिनांक 25 नवम्बर, 2003 (xxvii) का.आ. 1385(अ), दिनांक 23 सितम्बर, 2005 (xxviii) का.आ. 365(अ), दिनांक 20 मार्च, 2006 (xxix) का.आ. 1087(अ), दिनांक 11 जुलाई, 2006 (xxx) का.आ. 588(अ), दिनांक 17 अप्रैल, 2007 (xxxi) का.आ. 1780(अ), दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 (xxxii) का.आ. 52(अ), दिनांक 9 जनवरी, 2008 (xxxiii) का.आ. 2135(अ), दिनांक 29 अगस्त, 2008 (xxxiv) का.आ. 2710(अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2008 (xxxv) का.आ. 821(अ), दिनांक 23 मार्च, 2009 (xxxvi) का.आ. 2699(अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 (xxxvii) का.आ. 31(अ), दिनांक 07 जनवरी, 2010 (xxxviii) का.आ. 820(अ), दिनांक 9 अप्रैल, 2010 (xxxix) का.आ. 942(अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2010 (xi) का.आ. 2066(अ), दिनांक 23 अगस्त, 2010
14. अधीक्षण अभियंता (योजना), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली	—सदस्य	
धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (च) के अधीन नियुक्त		
15. सचिव, महाराष्ट्र सरकार में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का कार्य देखने वाले विभाग के प्रभारी	—सदस्य	
16. सचिव, मध्य प्रदेश सरकार में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का कार्य देखने वाले विभाग के प्रभारी	—सदस्य	
17. सचिव, मणिपुर सरकार में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का कार्य देखने वाले विभाग के प्रभारी	—सदस्य	
18. सचिव, मेघालय सरकार में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का कार्य देखने वाले विभाग के प्रभारी	—सदस्य	
19. सचिव, मिजोरम सरकार में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का कार्य देखने वाले विभाग के प्रभारी	—सदस्य	
धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (छ) के अधीन नियुक्त		
20. महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् पूसा, नई दिल्ली	—सदस्य	
21. कार्यकारी निदेशक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुडगांव	—सदस्य	
22. प्रबंध निदेशक भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ, नई दिल्ली	—सदस्य	
23. निदेशक केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर	—सदस्य	
24. निदेशक भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई	—सदस्य"	
[फा. सं. 6/17/2010-ईपी (एग्री-IV)]		
सिद्धार्थ, संयुक्त सचिव		
टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 486(अ), दिनांक 12 अगस्त, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी एवं तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए थे :—		

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th January, 2011

S.O. 216(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), read with rule 3 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Rules, 1986, the Central Government hereby appoints the following members of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority for a period of two years with effect from the date of publication of this notification and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce number S.O. 486(E), dated the 12th August, 1986, namely :—

In the said notification,—

(a) For serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"Appointed under clause (a) of sub-section (4) of Section 4 :

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Chairman, | Chairman" |
| Agricultural and Processed | |
| Food Products, Export Development | |
| Authority, New Delhi | |

(b) For serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"Appointed under clause (c) of sub-section (4) of Section 4 :

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 3. Joint Secretary in charge of | Member"; |
| Commerce and Industry in the | |
| Planning Commission, | |
| Government of India | |

(c) for serial number 7 to 24 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be respectively substituted, namely :—

"Appointed under clause (e) of sub-section (4) of Section 4 :

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 7. Joint Secretary (Trade), | —Member |
| Department of Agriculture and | |
| Cooperation, Ministry of | |
| Agriculture, New Delhi | |
| 8. Deputy Secretary (Export Promotion | —Member |
| Agriculture), Department of | |
| Commerce, Ministry of Commerce | |
| and Industry, | |
| Udyog Bhawan, New Delhi | |

- | | |
|--|---------|
| 9. Director (Finance), Department | —Member |
| of Commerce, Ministry of | |
| Commerce and Industry, | |
| Udyog Bhawan, New Delhi | |
| 10. Director, | —Member |
| Ministry of Food Processing | |
| Industries, Panchsheel Bhawan, | |
| August Kranti Marg, New Delhi | |
| 11. Director, | —Member |
| Department of Food and | |
| Public Distribution, | |
| Krishi Bhawan, New Delhi | |
| 12. Joint Secretary (Impex), | —Member |
| Department of Food and | |
| Public Distribution | |
| Krishi Bhawan, New Delhi | |
| 13. Director, | —Member |
| Ministry of Civil Aviation, | |
| Rajiv Gandhi Bhawan, New Delhi | |
| 14. Superintending Engineer (Planning) | —Member |
| Ministry of Road Transport and | |
| Highways, Parivahan Bhawan, | |
| New Delhi | |

Appointed under clause (f) of sub-section (4) of Section 4 :

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 15. Secretary, In-charge of the | —Member |
| Department dealing with | |
| agriculture and processed food | |
| Products in the Government of | |
| Maharashtra | |
| 16. Secretary, In-charge of the | —Member |
| Department dealing with | |
| agriculture and processed food | |
| products in the Government of | |
| Madhya Pradesh | |
| 17. Secretary, In-charge of the | —Member |
| Department dealing with | |
| agriculture and processed food | |
| products in the Government of | |
| Manipur | |
| 18. Secretary, In-charge of the | —Member |
| Department dealing with | |
| agriculture and processed food | |
| products in the Government of | |
| Meghalaya | |
| 19. Secretary, In-charge of the | —Member |
| Department dealing with | |
| agriculture and processed food | |
| products in the Government of | |
| Mizoram | |

**Appointed under clause (g) of sub-section (4) of
Section 4 :**

- | | |
|---|----------|
| 20. Director General,
Indian Council of Agricultural
Research, Pusa,
New Delhi. | —Member |
| 21. Executive Director,
National Horticulture Board,
Gurgaon. | —Member |
| 22. Managing Director,
National Agricultural
Cooperative Marketing
Federation of India,
New Delhi | —Member |
| 23. Director, Central Food
Technological Research
Institute, Mysore | —Member |
| 24. Director,
Indian Institute of
Packaging, Mumbai. | —Member" |

[F. No. 6/17/2010-EP(Agri-IV)]

SIDDHARTH, Jt. Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 486(E), dated the 12th August, 1986 and subsequently amended by the following notifications, namely :—

- (i) S.O. 851 (E), dated the 20th November, 1986;
- (ii) S.O. 50(E), dated the 3rd February, 1987;
- (iii) S.O. 757(E), dated the 12th August, 1988;
- (iv) S.O. 458(E), dated the 16th June, 1989;
- (v) S.O. 808(E), dated the 22nd October, 1990;
- (vi) S.O. 39(E), dated the 22nd June, 1991;
- (vii) S.O. 99(E), dated the 14th February, 1991;
- (viii) S.O. 827(E), dated the 16th December, 1991;
- (ix) S.O. 858 (E), dated the 24th November, 1992;

- (x) S.O. 1050(E), dated the 31st December, 1993;
- (xi) S.O. 531(E), dated the 18th July, 1994;
- (xii) S.O. 346(E), dated the 19th April, 1995;
- (xiii) S.O. 668(E), dated the 26th July, 1995;
- (xiv) S.O. 228(E), dated the 21st March, 1997;
- (xv) S.O. 683(E), dated the 26th September, 1997;
- (xvi) S.O. 146(E), dated the 24th February, 1998;
- (xvii) S.O. 805(E), dated the 11th September, 1998;
- (xviii) S.O. 288(E), dated the 26th April, 1999;
- (xix) S.O. 794(E), dated the 27th September, 1999;
- (xx) S.O. 39(E), dated the 12th January, 2000;
- (xxi) S.O. 417(E), dated the 26th April, 2000;
- (xxii) S.O. 156(E), dated the 22nd February, 2001;
- (xxiii) S.O. 482(E), dated the 29th May, 2001;
- (xxiv) S.O. 534(E), dated the 10th May, 2002;
- (xxv) S.O. 866(E), dated the 10th July, 2003;
- (xxvi) S.O. 1353(E), dated the 25th November, 2003;
- (xxvii) S.O. 1385(E), dated the 23rd September, 2005;
- (xxviii) S.O. 365(E), dated the 20th March, 2006;
- (xxix) S.O. 1087(E), dated the 11th July, 2006;
- (xxx) S.O. 588(E), dated the 17th April, 2007;
- (xxxi) S.O. 1780(E), dated the 16th October, 2007;
- (xxxii) S.O. 52(E), dated the 9th January, 2008;
- (xxxiii) S.O. 2135(E), dated the 29th August, 2008;
- (xxxiv) S.O. 2710(E), dated the 18th November, 2008;
- (xxxv) S.O. 821(E), dated the 23rd March, 2009;
- (xxxvi) S.O. 2699(E), dated the 27th October, 2009;
- (xxxvii) S.O. 31(E), dated the 7th January, 2010;
- (xxxviii) S.O. 820(E), dated the 9th April, 2010;
- (xxxix) S.O. 942(E), dated the 23rd April, 2010;
- (xl) S.O. 2066(E), dated the 23rd August, 2010;